

## खुल गया मंदिर खाटू धाम का | by Amit kalra Meetu

खुल गया खुल गया खुल गया मंदिर खाटू धाम का  
बाबा के दर जाएंगे कुछ दिल की बतलायेंगे  
ये सोच के झूमे नाचे हर दीवाना श्याम का  
खुल गया मंदिर.....

जबसे रूठा है श्याम मेरा बनता ही नहीं कोई काम मेरा  
मंदिर के पट बंद कर डाले कैसे पहुंचे पैगाम मेरा  
क्या क्या दिल में नहीं आया कैसे ये वक्रत बिताया  
श्याम के दर्शन बिन ये जीवन है किस काम का  
खुल गया मंदिर.....

जीव भरम में डोल रहा खुद को खुद से था तोल रहा  
रची प्रभु ने ये लीला अब हाथ जोड़ कर बोल रहा  
ना और प्रभु तरसाओ प्रेमी को गले लगाओ  
दर्शन का हक दे दो मुझको मेरे नाम का  
खुल गया मंदिर.....

मैंने तो सोच लिया है अब ना छोड़ूंगा ये द्वार कभी  
ऐसी ना कोई गलती हो जिससे रूटे सरकार कभी  
अब और कहीं ना जाना चरणों में मिले ठिकाना  
मीतू है दीवान खाटू वाले श्याम का  
खुल गया मंदिर.....

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%97%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a5%82-%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be-by-amit-kal/>